

**Bachelor of Arts (B.A.) Examination: May – 2023**  
**Distance Education**

Day & Date	Semester	Subject Name	Time	Code	Marks
Saturday 20-05-2023	V (Fresh/ Repeater)	D.C. Hindi – Madhyakalin Kavya	02:30 PM To 05:00 PM	546003	75

सूचनाएँ:— सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

- प्र.1 ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। (कोई दो) 20
- अ) मनिषा जनम दुलभ हे, देह न बारम्बार।  
तरवर थै फल झड़ी पडया, बहुरि न लागे डार।।
- आ) चहो न सुगति, सुमति, संपति, कछु रिधि सिधि विपुल बड़ाई।  
हेतुरहित अनुराग रामपद बढौ, अनुदिन अधिकाई।।  
कुटिल करम लै जाय मोहि, जंह जंह अपनी बरिआई।  
तंह तंह जिनि छीन छोह छाडिए, कमठ अंड की नाई।।
- इ) भाया छौडया बन्धा छौडया छौडया सगौ सूया।  
साँधा ठिग बैठ-बैठ लोकलाज खुयाँ।।  
भगतत देख्या राजी हय्यौ, जगत देख्यां रूयौ।  
असवाँ जल सींच सींच प्रेम बेल बूयाँ।।
- ई) दृग उरझत टूटत कुटुम, जुरत चतुर-चित्त प्रीति।  
परति गौठी दुरजन – हियै, नई यह रीति।
- प्र.2 जायसी का जीवन परिचय देते हुए उनके लोकपक्ष के ज्ञान को स्पष्ट कीजिए। 20
- अथवा**
- तुलसीदास की भक्ती – भावना पर प्रकाश डालिए।
- प्र.3 निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 20
- अ) रीतिकाल के श्रृगांर – काव्य में बिहारी के योगदान पर प्रकाश डालिए।
- आ) भ्रमरगीत के वाग्वैदग्ध्य को रेखांकित कीजिए।
- इ) मीराबाई की प्रेमभावना की पुष्टि कीजिए।
- ई) बिहारी के नीतिपरक विचार पठित दोहो के आधार पर बताइये।
- प्र.4 अ) एक वाक्य में उत्तर लिखिए। 05
- 1) 'पद्मावत' की रचना फारसी की किस शैली में की गयी है?
  - 2) सूरदास ने किस गुरु से दीक्षा ली थी?
  - 3) "सुन्दर काण्ड" किस रचना का एक भाग है?
  - 4) 'नरसी जी का मायरा' के रचयिता का नाम लिखिए।
  - 5) बिहारी किस राजा के विशेष कृपापात्र रहे थे?

आ) सही या गलत लिखिए।

05

- 1) कबीर सूफी मत के समर्थक हैं।
- 2) जायसी रीतिकाल के रीतिमुक्त कवि माने जाते हैं।
- 3) मानसरोवर में मीराबाई सहेलियों के साथ खेलने गयी थी।
- 4) सूरदास को अष्टछाप के कवि कहा जाता है।
- 5) 'कवितावली' के रचनाकार तुलसीदास है।

इ) जोड़े मिलाइए।

05

अ

ब

- |             |                   |
|-------------|-------------------|
| 1) सूरदास   | अ) विनयपत्रिका    |
| 2) मीरा     | ब) श्रृंगार वर्णन |
| 3) तुलसीदास | क) निर्गुणोपासक   |
| 4) कबीर     | ड) पुष्टिमार्ग    |
| 5) बिहारी   | इ) मेड़तानी       |